

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक- 07.11.2020

करीब 02 लाख रुपये कीमत की 01 किलोग्राम अफीम सहित 04 शातिर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्तों को थाना काँट व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार,

02 मोटर साइकिलें व 05 अदद मोबाइल फोन किये गये बरामद।

एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, महेन्द्र सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में व के0बी0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना काँट के नेतृत्व में व एस0ओ0जी0 टीम व थाना काँट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 06/07.11.20 को थाना काँट पुलिस टीम व एस0ओ0जी0 टीम अभियान के अन्तर्गत थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थी कि मुखबिर खास की सूचना पर 04 शातिर मादक पदार्थ तस्करों 1. अरवेन्द्र सिंह पुत्र होशियार सिंह 2. मोबीन पुत्र मुनव्वर 3. राजीव पुत्र हरपाल 4. अमन उर्फ अमान को कमलनैनपुर तिराहा से रात्रि करीब 01.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 किग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-02 लाख रुपये), 02 मोटर साइकिल, व 05 अदद मोबाइल फोन (03 बड़े एंड्रायड व 02 छोटे) व जामा तलाशी में 870 रुपये बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना काँट पर मु0अ0स0-760/20 धारा- 8/17 NDPS Act बनाम अरवेन्द्र उपरोक्त, मु0अ0स0-761/20 धारा- 8/17 NDPS Act बनाम मोबीन उपरोक्त, मु0अ0स0-762/20 धारा- 8/17 NDPS Act बनाम राजीव उपरोक्त व मु0अ0स0-763/20 धारा- 8/17 NDPS Act बनाम अमन उर्फ अमान उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा बरामद शुदा 02 मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा-207 एम0वी0एक्ट0 में सीज किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समभ पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभिक्तगण का विवरण:-

1. अरवेन्द्र सिंह पुत्र होशियार सिंह नि0 ग्राम लाडपुर यारपुर थाना कांट जिला शाहजहाँपुर।
2. मोबीन पुत्र मुनव्वर नि0 ग्राम रावतपुर थाना कांट जिला शाहजहाँपुर।
3. राजीव पुत्र हरपाल नि0 ग्राम रुपापुर थाना कोतवाली जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर।
4. अमन उर्फ अमान पुत्र यूसुफ नि0 मो0 जलालनगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 किग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-02 लाख रुपये), 02 मोटर साइकिल, व 05 अदद मोबाइल फोन (03 बड़े एंड्रायड- जिनमें से एक VIVO कम्पनी का, दूसरा सैमसंग कम्पनी का तथा तीसरा लावा कम्पनी का व 02 छोटे जिनमें से एक सैमसंग कम्पनी का तथा दूसरा आइटेल कम्पनी का) व जामा तलाशी में 870 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री प्रतीक शर्मा थाना कांट शाहजहाँपुर
2. प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 श्री रोहित कुमार
3. का0 534 रामसंजीवन थाना कांट शाहजहाँपुर
4. का0 1957 सौरभ कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
5. का0 1612 सुमित कुमार थाना कांट शाहजहाँपुर
6. का0 671 अमरजीत सिंह एस0ओ0जी0 शाह0
7. का0 1475 अजय कुमार एस0ओ0जी0 शाह0
8. का0 1855 कुशल पाल एस0ओ0जी0 शाह0

